



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232053
CG-DL-E-21122021-232053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4937]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943

No. 4937]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

सं. 39/2021-केन्द्रीय कर

का.आ. 5328(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 108, धारा 109 और धारा 113 से 122 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/26/2021-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2021

No. 39/2021–Central Tax

S.O. 5328(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2022, as the date on which the provisions of sections 108, 109 and 113 to 122 of the said Act shall come into force.

[F. No. CBIC-20006/26/2021-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.